

cent based on old methodology," he told reporters here. "Prime Minister Narendra Modi has betrayed the people of India. He and his government have proved to be useless. Modi has pulled the country behind and shut the window of opportunities for the country's youths," he said. "We have also demand-

on the state of the economy. They have been stonewalling this demand of Congress for long," he said. The former Union minister further stated, "The Q2 GDP numbers, our concern and fear is, will again be low. So, 2017-18 like 2016-17 is going to be bad years for the Indian economy".

suffered bullet injuries in 'enemy fire' from across the LoC around 1745 hours today, the BSF official said. Singh, who was deployed at a forward post in the Krishna Ghati sector in Poonch, was given first aid. He died while being taken to a military hospital, he said.

procurement system <https://www.mpeproc.gov.in>
Name of Work : (1) Operation and One year annual maintenance Contract for Cummins Engine Model 6BYA-5, 9-G1, 1x82.5 KVA silent DG Set at Head Office Indore P.A.C. Rs. 1.80 Lacs. **EMD : 3,600/-**, Last date of purchasing Tender 11.09.2017.
 Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portal.
M.P. Madhyam/86727/2017 **EXECUTIVE ENGINEER**

FLUIDOMAT LIMITED

CIN L74210MP1978PLC001452

Regd. Office: 117, 1st Floor, 'Navneet Darshan', 16/2, Old Palasia, Indore (MP) 452018.
 Website: www.fluidomat.com, Email: info@fluidomat.com, Contact: 0731-2564820

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that;

- (1) The 41st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday the 26th September, 2017 at the Pritam Lal Dua Auditorium, Government Ahilya Central Library, Near Regal Square, M G Road, Indore-452001 at 2.00 P.M. to transact the Business, as set out in the Notice of AGM;
- (2) Electronic copies of the notice of AGM and Annual Report for 2016-17 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website www.fluidomat.com. Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of notice of AGM has been completed on September 01, 2017;
- (3) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 19, 2017 may cast their vote electronically on the Business as set out in the notice of AGM through remote electronic voting system on National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("Remote E-voting"). All the members are informed that:
 - i. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
 - ii. The remote e-voting shall commence on September 23, 2017 at 9:00 A.M [IST].
 - iii. The remote e-voting shall end on September 25, 2017 at 5:00 P.M [IST].
 - iv. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the login-id and password by sending an e-mail to complianceofficerfluidomat@rediffmail.com or ankit.4321@yahoo.com or evoting@nsdl.co.in by mentioning their Folio No./DP ID and client ID No. However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting your vote.
- V. Members may note that:
 - a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM;
 - c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
 - d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;
- VI. For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "NOTES" in notice of the AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the FAQs for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or may contact:

Particulars	National Securities Depository Limited	Ankit Consultancy Pvt. Ltd.	Fluidomat Limited
Address	Trade, world 4 th & 5 th Floor, Kamla Mills Compound, Lower Parel, Mumbai 400 013	Plot No. 60, Electronic Complex, Pardeshipura, Indore (M.P.) 452001.	117, 1 st Floor, Navneet Darshan, 16/2, Old Palasia, Indore (M.P.)- 452018
Name & Designation	Mr. Sagar Dharankar, Assistant Manager	Mr. Saurabh Maheshwari, Company Secretary	Mr. Devenendra Kumar Sahu, Company Secretary
Tel.	022-24994262	0731-2551745/46	07272-258582, 258583, 268100
E-mail id	evoting@nsdl.co.in	ankit.4321@yahoo.com	Complianceofficerfluidomat@rediffmail.com

- (4) Further Notice is given that pursuant to Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulation, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members & Share Transfers Books of the Company will remain closed from September 20, 2017 to September 26, 2017 (both day inclusive) for the purpose of the above said AGM of the Company and to determine the names of the members who will be entitled to receive final dividend if approved at the 41st AGM.

For, FLUIDOMAT LIMITED

ASHOK JAIN
 CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
 DIN 00007813

Place: Indore (M.P.)
 Date: September, 01, 2017

CISTRO TELELINK LIMITED

206, Airen Heights, AB Road, Indore 452010, Madhya Pradesh
 Tel No.: 0731-2555022; Fax No.: 0731-2555722 CIN No: L19201MP1992PLC006925
 Email ID: cistrotelelink@gmail.com Website: www.cistrotelelink.net

NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

1. NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 23rd September, 2017 at 11.00 a.m. at the Registered Office of the Company situated at 206, Airen Heights, AB Road, Indore, Madhya Pradesh - 452 010 to transact the business detailed in the Notice dated 11th August, 2017 forming part of the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2017 which has been sent to the Members.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended on 31st March, 2017 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s). The same is also available on the website of the Company www.cistrotelelink.net. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2017 have been sent to all other members at their registered address in their permitted mode. The dispatch of Notice of Twenty-Fifth Annual General Meeting has been completed on 30th August 2017.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Saturday, September 16, 2017, may cast their vote electronically on the Ordinary Business(es) as set out in the Notice of the 25th AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited from a place other than the Venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
 - I. The Ordinary Resolution as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
 - II. The remote e-voting shall commence on 20th September, 2017 (09.00 a.m.)
 - III. The remote e-voting shall end on 22nd September, 2017 (05.00 p.m.)
 - IV. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Saturday, September 16, 2017.
 - V. Person who acquire shares of the Company and become the member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. September 16, 2017, can follow the process of generating the login ID and password as provided in the Notice of AGM.
 - VI. Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by the CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on the resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the member who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; c) the facility for voting through postal ballot paper shall be made available at the AGM; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through postal ballot.
- VII. The Notice of AGM is available at the website of the Company www.cistrotelelink.net and also on CDSL website www.cdslindia.com
- VIII. In case of any queries, members refer Frequently Asked Question (FAQ's) and e-voting manual available at www.Evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Arun Sharma, Compliance officer at designated email ID sharma_surat2000@yahoo.com or contact at Tel : 0731-2555022 who will address the grievance connected with the facility for voting by electronics means.
4. The Register of Members and Share Transfer Register in respect of equity shares of the Company will remain closed from Saturday, September 16, 2017 to Saturday, September 23, 2017 (both days inclusive).

By Order of the Board
 For CISTRO TELELINK LIMITED
 Sd/-
 Arun Kumar Sharma

द होने के बाद भी चल रही मिलों में झांकी की परंपरा

इंदौर सेवा ट्रस्ट ने किया 5 मिलों के पदाधिकारियों का सम्मान

इंदौर। इंदौर सेवा ट्रस्ट

पं. योगेंद्र महंत ने कम्यूटर

पा का चयन

उपाध्याय, अक्षत गुप्ता, अनुभव शर्मा, शोभित भार्गव, भव्य सिकरवार, भानुप्रताप सिंह, शशांक गुप्ता, किन्शुक नीमा, निलय काला एवं अन्नया चौधरी। चयनित छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत के साथ-साथ फिटजी इंदौर की पढ़ाई, टेस्ट सीरीज और फेकल्टीज को दिया। फिटजी इंदौर चयनित छात्रों को बधाई देता है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। इस वर्ष भी फिटजी इंदौर ने एनटीएसई, ओलम्पियाड, एकेवीपीवाई एवं आईआईटीआई में उत्कृष्ट रिजल्ट देने की अपनी अनवरत परंपरा को कायम रखा है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एनसीआरटी द्वारा दो चरणों में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का उद्देश्य दसवीं कक्षा के मेधावी छात्रों की प्रतिभा का सम्मान देना है।

इंदौर

इंदौर, दिनांक 28.08.17

आमंत्रित की जाती है। निविदाएं पंजीकृत डाक

1. निविदा खोलने का दिनांक समय एवं कार्यालय	1. निविदा पूर्ण करने की अवधि
2. ठेकेदार की श्रेणी	3. आमंत्रण क्र.
8	9
1) 14.09.17 प्रातः 11.00 बजे	1) 60 दिन 2) लो.नि.वि. में पंजीकृत विद्युत लाइसेंसधारी
2) लो.नि.वि. वि./या. सं इंदौर तदैव	3. प्रथम आमंत्रण
तदैव	तदैव
तदैव	तदैव
तदैव	तदैव

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि./या. संभाग, इंदौर

Burhanpur (M.P.) 450331
Ph. : (07325) 255122, Fax (07325) 253273
Email: texmopipe@texmopipe.com
Website: <http://www.texmopipe.com>

NOTICE

Pursuant to Regulation 47(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Board of Directors will meet on Monday, 11th September, 2017 at 4.30 P.M. at registered office of the company to consider, approve and take on record, inter alia, the Un-audited Financial Results for the first quarter ended on 30th June, 2017 along with other items of Agenda. This information also available on company's website (www.texmopipe.com) and website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

For: Texmo Pipes and Products Limited

Date: 1-09-2017
Place: Burhanpur (M.P.)

Shyam Sumder Agrawal
Company Secretary
& Compliance Officer

The Share Transfer books and Register of Members of the Company will remain closed from September 25th, 2017 to September 27th, 2017 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Members can also see the notice of AGM and Annual Report for 2016-2017 are available on the website of the company www.divyajyoti.net. For any further queries members can contact to the Company/Registrar.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may contact the person mentioned below:

Name : Prabhavi Mungee
Designation : Company Secretary
Address : 201-204 B.M. Towers Opposite Lotus Showroom,
Sapna Sangeeta Road, Indore - 452001 (M.P.)
E-mail id : shares@divyajyoti.net
Phone No. : 0731-4010900-1

For Divya Jyoti Industries Limited

Sd/-

Prabhavi Mungee
Company Secretary

Date : 01.09.2017
Place : Indore

फ्लूडोमेट लिमिटेड

CIN:L74210MP1978PLC001452

पंजीकृत कार्यालय-117, प्रथम तल नवनीत दर्शन, 16/2, ओल्ड पलासिया इंदौर म.प्र. 452018
ईमेल-info@fluidomat.com वेबसाइट www.fluidomat.com Ph 0731 2564820

41वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि

- कंपनी की 41वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) प्रीतमलाल दुआ सभागृह, शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय, रीगल चौराहे के पास, एम.जी. रोड इंदौर में मंगलवार 26 सितम्बर 2017 को 2 बजे आयोजित की जावेगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों की निष्पादित किया जायेगा।
- एजीएम की सूचना तथा 2016-17 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आईडीज कंपनी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.fluidomat.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा 2016-17 के वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को स्विकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं। एजीएम के प्रेषण कार्य को 1 सितम्बर 2017 को पूरा कर लिया गया है।
- 19 सितम्बर 2017 की कट ऑफ तिथि की भौतिक पद्धति अथवा डिपोजिटरी लाइजड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के अलावा अन्य किसी स्थान से नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

- एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण सभा तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादित किया जायेगा।
- रिमोट ई वोटिंग 23 सितम्बर 2017 को प्रातः 9 बजे आरंभ होगी।
- रिमोट ई वोटिंग 25 सितम्बर 2017 को सायं 5.00 बजे बंद होगी।
- ऐसे सभी सदस्य जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्पित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं कट ऑफ तिथि को शेयर करते हैं वे evoting@nsdl.co.in अथवा complianceofficer@fluidomat.com या ankit.4321@yahoo.com पर प्रार्थना भेजकर लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ई वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है तो वे मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- सदस्यगण यह ध्यान रखें कि
 - रिमोट ई वोटिंग पद्धति के लिये उपरोक्त विधि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय हो जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी भी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद उसमें बाद में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जायेगी।
 - एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
 - ऐसे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया हो वो सभी सदस्यगण एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं होगी तथा
 - ऐसे सदस्य ही रिमोट ई वोटिंग या बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे जिसके नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामी के रजिस्टर में नाम होंगे।
- एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.fluidomat.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है तथा
- पूछताछ के लिये सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिये frequently asked questions (FAQS) तथा सदस्यों के लिए ई वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें तथा नीचे दिये गये पते पर संपर्क करें।

Particulars address	National Securities Depository limited Trade world 4th & 5th floor kamalas mills compound lower Mumbai 400013 Mr. Sagar Dharankar, Assistant Manager 022-24994262 evoting@nsdl.co.in	Ankit Consultancy Pvt.Ltd. Plot no. 60 Electronic complex pardeshipura Indore (M.P.) 452001 Mr. Saurabh Maheshwari Company Secretary 0731-2551745/46 ankit.4321@yahoo.com	Fluidomat Limited 117, 1st floor Navneet Darshan, 16/2 old Palasiya Indore MP 452018 Mr. Devendra kumar sahu Company Secretary 07272-258582, 258583, 268100 complianceofficer@fluidomat.com
---------------------	---	---	--

4. सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तक बुधवार 20 सितम्बर 2017 (दोनों दिवस सहित) एक वार्षिक क्लोजिंग तथा 2016-17 के लिये लाभार्थ के लिये शेयर धारकों की अधिकारिता निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद होंगे।

तिथि 1 सितम्बर 2017
स्थान इंदौर म.प्र.

वास्ते फ्लूडोमेट लिमिटेड
अशोक जैन (अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक)
DIN 00007813